

अष्टम् प्रश्न-पत्र
(कृषि-जन्तु विज्ञान)
सिद्धान्त

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

- 1-(अ) जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, भौतिक गुण एवं जैविक गुण, पैरामीशियम ।
- 2-तिलचट्टा वाह्यआकार स्वभाव एवं जीवन चक्र, दीमक, गोलकृमि का जीवन चक्र ।
- 3- तिलचट्टा की आन्तरिक संरचना ।
- 4- खरगोश के फुपफुस तथा वृक्क की आन्तरिक संरचना, श्वसन क्रियाविधि का अध्ययन
- 5- अर्द्धसूत्री विभाजन, लिंग निर्धारण होमोफीलिया वर्णान्धता ।

प्रयोगात्मक

दीमक का जीवन चक्र, तिलचट्टा का जीवन चक्र, गोलकृमि का जीवन चक्र, वृक्क की अनुप्रस्थ काट ।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है-

अष्टम् प्रश्न-पत्र
(कृषि-जन्तु विज्ञान)
सिद्धान्त

- 1-(अ) सजीव, निर्जीव में भेद । 10
- (ब) अमीबा जैसे-जन्तुओं द्वारा जीवित पदार्थ का अध्ययन ।
- 2-निम्नलिखित के वाह्य आकार, स्वभाव तथा जीवन-वृत्त का अध्ययन- 10
- (क) अकशेरुकीय-, केचुआ, रेशम का कीट, मधुमक्खी ।
- (ख) कशेरुकीय-किसी एक पक्षी तथा एक स्तनधारी (गिलहरी या खरगोश) ।
- 3-निम्नलिखित की आन्तरिक संरचना- 10
- केचुआ, तथा खरगोश ।
- 4-(क) स्तनधारी के आमाशय, रुधिर की हिस्टोलॉजी का प्रारम्भिक अध्ययन । 10
- (ख) पाचन तथा उत्सर्जन की क्रिया-विज्ञान का साधारण ज्ञान ।
- 5-(क) अनुच्छेद-2 के जन्तुओं का वर्गीकरण । 10
- (ख) मानव अनुवांशिकी का प्रारम्भिक ज्ञान ।
- (ग) कोशा विभाजन का महत्व ।

प्रयोगात्मक

- 1-सिद्धान्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अनुच्छेद 1(क), 2(क) व 2(ख) के जन्तुओं की पहचान । 10
- 2-सिद्धान्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 2 के जन्तुओं का वाह्य आकार एवं जीवन वृत्त का अध्ययन 06
- 3-प्रोजेक्ट कार्य- 06
- (क) कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जन्तुओं की सूची ।
- (प्रत्येक फाइलम से कम से कम एक जन्तु) तैयार करें ।
- (ख) फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं दो जन्तुओं के मुखांगों का चार्ट/मॉडल के माध्यम से अध्ययन
- अकशेरुकी अथवा पक्षी या स्तनधारी के संदर्भ में,
- नोट-विषय अध्यापक छात्र की सुविधानुसार प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित करेंगे ।
- 4-स्पॉट पहचान (06 स्पॉट)- 12
- (क) स्थायी स्लाइड का अध्ययन-सिद्धान्त पाठ्यक्रम-4(क) के अन्तर्गत उल्लिखित पदार्थों के स्थायी आरोपण का अध्ययन, सूक्ष्मदर्शीय ज्ञान ।

(ख) उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले कृषि महत्व के साधारण पक्षियों की पहचान, समाजशास्त्र वर्गीकरण का ज्ञान तथा उनके नाम।

5-सत्रीय कार्य-

08

प्रयोगात्मक उत्तर पुस्तिका जो कि अध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें परीक्षार्थी का वास्तविक कार्य हो, प्रस्तुत करना होगा।

6-मौखिक-

08

(क) मौखिक प्रश्न-सैद्धान्तिक भाग में दिये गये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न आधारित होंगे।
(ख) सम्बन्धित जन्तुओं का संग्रह।

पुस्तकें-

कोई पुस्तक संस्तुत नहीं की गयी है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें।

अधिकतम अंक : 50

न्यूनतम उत्तीर्णांक : 16

समय : 03 घंटा

1-वाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन - 25 अंक

निर्धारित अंक

1-जन्तुओं एवं वस्तुओं की पहचान-

07 अंक

2-दिये गये पदार्थों का सूक्ष्म विवेचन-

05 अंक

3-सूक्ष्मदर्शीय स्लाइड की पहचान-

07 अंक

4-मौखिक

06 अंक

2-आन्तरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन - 25 अंक

5-प्रोजेक्ट कार्य-

08 अंक

6-अभ्यास पुस्तिका-

10 अंक

7-मौखिक एवं सत्रीय कार्य (प्रयोगात्मक)-

07 अंक

नोट-अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा-

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायेंगे, उन विद्यालयों के सम्बन्धित विषयों के अध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा आन्तरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को पचास प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे, शेष पचास प्रतिशत अंक वाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे।